

# राज्यपाल सचिवालय

राजभवन, जयपुर

क्रमांक: प.17(8)राम/ 2019-01301/2814

दिनांक: ८/ जुलाई 2020

खुली बोली सूचना संख्या-०६/२०२०-२१

राजभवन जयपुर में टास्क बेस पर कार्यालय में पत्रावलियां लाने ले जाने, डाक बांटने का कार्य करने तथा राजभवन परिसर में फुलवारी, पौधों की पक्षियों से सुरक्षा करने एवं उद्यान इत्यादि के कार्य को जॉब बेसिस पर out sourcing आधार पर निवेशानुसार समय पर कुशलतापूर्वक कियान्वयन कराने के लिए अनुभवी फर्मों से दरों हेतु खुली बोली आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेज एवं बोली की शर्तें के राजभवन की वेबसाईट [www.rajbhawan.rajasthan.gov.in](http://www.rajbhawan.rajasthan.gov.in) एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 03.07.2020 को साथ: 06.00 बजे से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित	बोली प्रतिभूति	बोली दस्तावेजे	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि
1	राजभवन, जयपुर कार्यालय में पत्रावलियां लाने ले जाने, डाक बांटने इत्यादि कार्य करने तथा राजभवन परिसर में फुलवारी, पौधों की पक्षियों से सुरक्षा करने एवं उद्यान इत्यादि के कार्य को जॉब बेसिस पर out sourcing आधार पर समय पर कुशलता पूर्वक कियान्वयन कराये जाने बाबत	4,00,000/-	8,000/-	200/-	13.07.20

उक्त सेवाओं हेतु तकनिकी बोली परिशिष्ट-'अ' में एवं वित्तीय बोली परिशिष्ट-'ब' में मुहरबंद लिफाफे में पृथक-पृथक जिन पर स्पष्ट रूप से प्रदाय की जा रही सेवा का नाम लिखा हो, कन्द्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक 13.07.20 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा की जायेगी। तकनिकी बोली दिनांक 13.07.20 को साथ 3.00 बजे उपरिथित निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी एवं वित्तीय बोली खोलने बाबत तकनिकी बोली दाताओं को पृथक से सूचित किया जावेगा।

बोली की निर्धारित बोली शुल्क रूपए 200/- एवं निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि रूपए 8,000/- के पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के नाम से तकनिकी बोली परिशिष्ट-'अ' प्रपत्र के साथ जमा कराने होंगे। बिना बोली प्रतिभूति राशि अथवा निश्चित बोली प्रतिभूति राशि से कम राशि के बोलीरखीकार नहीं की जायेगी।

*13/07/2020*  
*(संघ्या शर्मा)*  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक: प.17(8)राम/ 2019-01301/2815

दिनांक: ०१ जुलाई 2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को एक राज्य स्तरीय व एक क्षेत्रीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी (II), राजभवन, जयपुर को खुली बोली आमन्त्रण सूचना दस्तावेज को राजभवन पोर्टल <http://www.rajbhawan.rajasthan.gov.in/> तथा राज्य सरकार के स्टेट पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर शीघ्र अपलोड कराने हेतु।
3. सहायक निदेशक जन सम्पर्क (प्रकोष्ठ), राजभवन, जयपुर, को निदेशालय जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्रकाशन कराने हेतु।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष, राजभवन, जयपुर को खुलीबोलीसूचना विज्ञापन के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग कर लेखा शाखा में भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड, राजभवन, जयपुर।

*13/07/2020*  
*(संघ्या शर्मा)*  
वित्तीय सलाहकार

## राज्यपाल सचिवालय

राजभवन, जयपुर

चैक लिस्ट

प्रस्तुत बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित कर सलंगन किये जावें।

- (1) बोलीदाता की ओर से दिये जाने वाला पत्र (बोली प्रपत्र) ।
- (2) बोली की शर्तें ।
- (3) आपूर्ति/कार्य/सेवा की दरों की सूची ।
- (4) अमानत राशि एवं बोली दस्तावेज राशि जमा कराने की रसीद/बैंकर्स चैक/डी.डी./चालान
- (5) माल एवं सेवाकर (GST) पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रति
- (6) अनुमत प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति
- (7) PAN की प्रति
- (8) करार पत्र
- (9) बोलीदाता की घोषणा
- (10) Annexure A- Conflict of Interest.
- (11) Annexure B- Declaration by the Bidder.
- (12) Annexure C- Grievance Redressal during Procurement Process.
- (13) Annexure D- Additional conditions of contract.
- (14) बोली की शर्तों के अनुसार अन्य चाहे गये दस्तावेज ।
- (15) बोली द्वि—प्रक्रमी बोली पद्धति के अन्तर्गत आमन्त्रि की जा रही है। तकनीकी बोली मय अन्य आवश्यक दस्तावेज परिशिष्ट 'अ' एवं वित्तीय बोली परिशिष्ट 'ब' में पृथक—पृथक सील बन्द लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी।

नोट:- (1) प्रपत्रो मे चाही गई सूचनाए/जानकारी अपूर्ण होने पर बोली अस्वीकार कर दी जावेगी।  
(2) प्रत्येक प्रलेख पृष्ठ पर बोलीदाता के द्वारा हस्ताक्षर किये जावे।  
(3) वित्तीय बोली में अंकित की गई दरों में कोई ओवरराइटिंग नही की जावें। यदि कोई संशोधन किया गया है तो पृथक से अंकित कर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।

लेखाधिकारी

कन्द्रोलर

सहायक सचिव

राज्यपाल सचिवालय,  
राजभवन, जयपुर

(बोली प्रपत्र तकनीकी बोली)

घोषणा

- (I) राजभवन जयपुर में टास्क बेस पर कार्यालय में पत्रावलियां लाने ले जाने, डाक बांटने का कार्य करने तथा राजभवन परिसर में फुलवारी, पौधों की पक्षियों से सुरक्षा करने एवं उद्यान इत्यादि के कार्य को निर्देशानुसार समय पर कुशलतापूर्वक कियान्वयन कराने के लिए टास्क बेसिस पर कराने के लिए खुली बोली :-
- (II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूर्ण पता :— दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल सहित :— बैंक का नाम ..... खाता संख्या ..... एवं IFSC CODE—
- (III) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :— कन्द्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन जयपुर।
- (IV) सन्दर्भ :— बोली आमंत्रण संख्या :— दिनांक ..... जो ..... (समाचार पत्र का नाम) दिनांक ..... में प्रकाशित हुई है।
- (V) (अ) बोली दस्तावेज शुल्क :— राशि रूपये ..... बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्रापट संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा जमा करा दी गई है।  
(ब) बोली प्रतिभूति शुल्क :— राशि रूपये ..... डीड़ी नं ..... दि 0 ..... जमा करा दी हूँ। बैंकर चैक / डीड़ी संलग्न है।
- (VI) हम बोली आमंत्रण संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "अ, ब, स, द" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। परिशिष्ट "अ, ब, स, द" के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण—स्वरूप परिशिष्ट 'द' हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा परिशिष्ट 'द' हस्ताक्षर शुदा संलग्न है।
- (VII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त सेवाओं की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।
- (VIII) हम सम्पूर्ण करते हैं कि 'वित्तीय बिड' में अंकित की गई दरें 'तकनीकी बिड' खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।
- (IX) हम सम्पूर्ण करते हैं कि "बोली" में अंकित दरें विस्तृत खुली बोली की शर्तों के अनुसार है।
- (X) हम सम्पूर्ण करते हैं कि वित्तीय बोली स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अन्वान में बोली निरस्त योग्य है।
- (XI) बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नांकित पंजीकरण इत्यादि का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति रखें कर बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :—

क्र. सं.	विवरण	रजि. नं	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति।				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति।				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति।				

३१.

३१

३१

4	माल एवं सेवाकर (GST) पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रति।			
5	आयकर स्थाई खाता सं. (PAN) की प्रति।			
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पाटनरशिप एकट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कम्पनी एकट 1956 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रति			

- (XII) बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत दो वित्तीय वर्ष (2018–19 व 2019–20) में सार्वजनिक निर्माण विभाग /राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों /केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के संवेदक के रूप में पंजीकृत हो तथा उद्यान संधारण का कार्य वी.बी.आई.पी. जगह, शासन सचिवालय/विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय/सा.नि.वि.के बंगला/जयपुर विकास प्राणिकरण आदि चाही गई समान प्रकृति के कार्य का अनुभव आवश्यक है, जिनका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा :—

क्र. सं.	विभाग/संस्था का नाम	चाही गई समान प्रकृति के कार्य करने वालत न्यूनतम पौंच – पौंच लाख तक के दो कार्यादेशों का विवरण	चाही गई समान प्रकृति के कार्य हेतु उपलब्ध कराय अभिकों की कार्य अवधि	विभाग/संस्था से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1				
2				

- (XIII) बोली/संवेदक द्वारा गत 2 वित्तीय वर्ष (2018–19 व 2019–20) में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर 05 लाख रूपये होना चाहिए। जिसके समर्थन में थार्ट अकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड विवरण पत्र/बैंलेस सीट की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करवाना आवश्यक है।

- (XIV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

S.N	Type of Certificate & Other informations	Yes/ No	Date of issue/ Validity
1-	Whether Bid document fee is submitted with the technical Bid. Provide details: Banker Cheque/ DD no..... dt..... Rs. .....		
2-	Whether Bid Security amount submitted with technical Bid. provide details: DD/Banker Cheque/Challan receipt no..... dt..... amount ..... Rs. ....		
3-	Whether agreed with all Bid conditions		
4-	Whether annexure – A,B,C&D have been downloaded, signed and submitted with the technical bid		
5-	Whether experience Certificate enclosed with the technical bid		
6-	The required copy of audited financial statements of last two years are enclosed with the technical bid		
7-	Whether the technical and financial bid have been submitted in differnt envelopes		
8-	Whether a copy of registration certificate (Contract		

9-	Whether a copy of registration certificate (Employee Provident fund act, 1952) enclosed with the technical bid		
10-	Whether a copy of registration certificate (Employee Insurance act, 1948) enclosed with the technical bid		
11-	Whether a copy of registration certificate (Rajasthan Shop and commercial establishment act, 1958) enclosed with the technical bid		

(XV) तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।

नोट :-

- कम संख्या (XI) में अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes' or 'No' उसके जारी होने की तिथि / ( Issuing date Validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व बोलीदाता का है इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी।
- बोली भरने की प्रक्रिया :-
  - (ए) परिशिष्ट "अ" तकनीकी बिड है। तकनीकी बोली के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट अ, "स" एवं "द" तथा अनुलग्नक अ, ब, स, द में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' पर हस्ताक्षर उपरान्त तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा।
  - (बी) वित्तीय बोली परिशिष्ट 'ब' अलग से मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

सहायक सचिव

लेखाधिकारी

(८१)  
कन्तिल

**राज्यपाल सचिवालय**  
राजभवन, जयपुर

**वितीय बोली**

राजभवन जयपुर में टार्स्क बेस पर कार्यालय में पत्रावलियां लाने ले जाने, भाक बाटने का कार्य करने तथा राजभवन परिसर में फूलबारी, पौधों की पक्कियाँ से सुखा करने एवं उदान इत्यादि के कार्य को निर्देशानुसार समय पर कुशलतापूर्वक कियान्वयन कराने के कार्य टार्स्क बेस पर कराने के लिए दर सिविदा ।

बोलीदाता का नाम :— .....  
पता :— .....

मोबाईल नं. ....  
ईमेल पता :— .....

S.No.	कार्य का विवरण	कार्य हेतु आवश्यक भानव संसाधन की अनुमानित सत्त्वा	अम विभाग हाथ निवारित चूताम मजदूरी (प्रति व्यक्ति प्रति माह)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दर (प्रति व्यक्ति प्रति माह)	इ.पी.एफ. दर प्रतिशत	ई.एस.आई. दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि प्रति अनिक क्षमते	कुल राशि प्रति माह (सभी करों सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजभवन, जयपुर कार्यालय में पत्रावलियां लाने ले जाने, भाक बाटने इत्यादि कार्य करने तथा राजभवन परिसर में फूलबारी, पौधों की पक्कियों से सुखा करने एवं उदान इत्यादि के कार्य को निर्देशानुसार समय पर कुशलता पूर्वक कियान्वयन कराने के कार्य टार्स्क बेस पर कराये जाने बाबत	1 उच्च कुशल पत्रावलियां लाने ले जाने, भाक बाटने इत्यादि कार्य करने तथा राजभवन परिसर में फूलबारी, पौधों की पक्कियों से सुखा करने एवं उदान इत्यादि के कार्य को निर्देशानुसार समय पर कुशलता पूर्वक कियान्वयन कराने के कार्य टार्स्क बेस पर कराये जाने बाबत	1 उच्च कुशल पत्रावलियां लाने ले जाने, भाक बाटने इत्यादि कार्य करने तथा राजभवन परिसर में फूलबारी, पौधों की पक्कियों से सुखा करने एवं उदान इत्यादि के कार्य को निर्देशानुसार समय पर कुशलता पूर्वक कियान्वयन कराने के कार्य टार्स्क बेस पर कराये जाने बाबत	7774/- व्यक्ति प्रति माह (26 दिन के लिए)	13%	13%	3.25%	
2	2 कुशल व्यक्ति प्रति माह (26 दिन के लिए)	6474/- व्यक्ति प्रति माह (26 दिन के लिए)	13%	13%	3.25%			

- नोट—(1) माल एवं सेवाकर (GST) की राशि प्रतिमाह नियमानुसार (यदि दर्य हो) पृष्ठक से देय होगी । नियमानुसार के सम्बन्ध में एवं उक्त लिफाके पर कार्य का नाम स्पष्टजाकित किया जावे ।  
(2) वितीय बोली पृष्ठक लिफाके में तील बंद करें एवं उक्त लिफाके पर कार्य का नाम स्पष्टजाकित किया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
एवं पूर्ण पत्त पत्र फोन नम्बर  
  
सहायक सचिव

कान्द्रेलर  
८७

लेखाधिकारी

# राज्यपाल सचिवालय

राजभवन, जयपुर

## बोली की शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं इससे सम्बन्धित वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन, आदेश, निर्देश प्रभावी होंगे। बोलीदाता को "नियम" "अधिनियम" की पूर्व जानकारी कर लेनी चाहिये। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" "नियम" के किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "नियम" एवं "अधिनियम" के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. बोली द्वि-प्रक्रमी बोली पद्धति के अन्तर्गत आमन्त्रित की जा रही है। तकनीकी बोली मय अन्य आवश्यक दस्तावेज परिशिष्ट 'अ' एवं वित्तीय बोली परिशिष्ट 'ब' में पृथक—पृथक सील बन्द लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी।
3. कार्य राजभवन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के निर्देशन में करना होगा।
4. कार्य के संबंध में विस्तार से जानकारी राजभवन कार्यालय से ली जा सकती है एवं उक्त कार्य के लिए कम से कम 03 अधिक नियोजित करने होंगे।
5. दरों की वैधता— तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य होगी।
6. यदि कोई बोलीदाता कार्य करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समष्ट हस्त कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवरित किया जा सकेगा।
7. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत या अन्य सरकारी संस्थान से पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति विड के साथ संलग्न करनी होगी।
8. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को दैघ होने चाहिए।
9. उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों की स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट द एवं अनुलग्नक अ.व.स हस्ताक्षर उपरान्त बोली के साथ संलग्न करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जायेगी।
10. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा वाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
11. विभागीय उपापन समिति के निर्णयनुसार वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगे।
12. राजभवन के उद्यान / अनुभाग प्रभावी अधिकारी के निर्देशन में कार्य यथा समय तुरन्त कराने होंगे।
13. कार्यपरान्त संबंधित अधिकृत अधिकारी से कार्य टास्क बेसिस पर प्रमाणित कराने के आधार पर भुगतान प्रतिमाह अनुमोदित दरों के अनुसार सीधे संवेदक के बैंक खाते में कोषालय के माध्यम से किया जायेगा तथा वसूलिया यदि कोई हो तो उन्हें प्रभारित किया जायेगा।
14. इस कार्य की अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से 1 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति से RTPP Rules 2013 के प्रावधाननुसार अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
15. सफल निविदादाता की दरें अनुमोदित होने के बाद नियमानुसार कार्यदेश की राशि की 5 प्रतिशत राशी कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में रुपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
16. यदि अनुमोदित संवेदक अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

५१

१२

१३/११५

17. संवेदक ठेके को या उसके किसी भाग को अन्य किसी ठेकेदार/संस्था को नहीं देगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।
18. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है तथा किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर सकता है।
19. कन्ट्रोलर राजभवन/उद्यान अधिकार या उन्हीं की ओर से अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी किसी भी समय कार्य का निरीक्षण करते हैं और कोई भी कमी पाई जाती है तो विभाग द्वारा तुरन्त प्रमाण से कार्य बद करवाने की कार्यवाही की जा सकती है।
20. ठेका संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर, राजभवन राजस्थान जयपुर, के नाम करना होगा। ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।
21. बेलीदाता बोली प्रस्तुत करने से पूर्व राजभवन में उपरिथित होकर उद्यान अधीक्षक से कार्यों की जानकारी प्राप्त कर उद्यानों का निरीक्षण कर सकते हैं।
22. संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में विभाग को अन्य किसी भी संस्था/ठेकेदार से अनुमोदित संवेदक की जोखिम पर कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
23. संवेदक को आदेश मिलने के तुरन्त बाद कार्य आरम्भ करना होगा। यदि आदेश मिलने के 7 दिवस में कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी व ठेका रद्द कर दिया जावेगा।
24. संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में विभाग को अन्य किसी भी संस्था/ठेकेदार से अनुमोदित संवेदक की जोखिम पर कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. संवेदक को आदेश मिलने के तुरन्त बाद कार्य आरम्भ करना होगा। यदि आदेश मिलने के 7 दिवस में कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी व ठेका रद्द कर दिया जावेगा।
26. निविदादाता सार्वजनिक निर्माण विभाग /राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों /केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के संवेदक के रूप में पंजीकृत हो तथा उद्यान संधारण का कार्य बी.बी.आई.पी. जगह, शासन सचिवालय/ विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय/सा.नि.वि.के बंगला/जयपुर विकास प्राणिकरण आदि में करने का कम से कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इसके प्रमाण में जारी कार्यादेश एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र की स्वहस्ताकृति प्रति संलग्न करनी होगी।
27. राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर लागू नियमों एवं वित्त विभाग (जी एण्ड टी ) के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 की पालना करनी होगी,जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
28. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संरिथित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (राज्यपाल सचिवालय या संवेदक) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।
29. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
30. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
31. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
32. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
33. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

लूप

(३)

प्रवित्री

34. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जावेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से आवंटित किया जावेगा।
35. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार लागू होने पर अपने समस्त श्रमिकों की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
36. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
37. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर कार्य पर लागू होने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों की जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
38. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों, अधिक सूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
39. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धालयी जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
40. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
41. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संर्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
42. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
43. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु रवीकृति करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम रवीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
44. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

३५

(८)

८७

45. संवेदक कार्यादेश के पश्चात यदि कार्य को अधूरा छोड़ता है अथवा संतोषजनक तरीके से पूर्ण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में संवेदक को 7 दिवस का नोटिस जारी किया जायेगा, तत्पश्चात भी अगर स्थिति में सुधार नहीं करता है तो उस पर कुल बिल राशि की प्रथम बार 5 प्रतिशत शास्ति, द्वितीय बार 7 प्रतिशत शास्ति एवं तृतीय बार 10 प्रतिशत शास्ति लगायी जायेगी। यदि इसके बाद भी कार्य में सुधार नहीं आता है तो ठेका निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावेगा।
46. फर्म/फर्म मालिक यदि पूर्व में केन्द्रीय सरकार/किसी भी राज्य सरकार अथवा इनके किसी विभाग/उपक्रम/संस्था द्वारा एक से अधिक बार कार्य को अधूरा छोड़ने अथवा संतोषजनक तरीके से पूर्ण नहीं करने पर शास्ति लगायी जा कर वसूल की गई हो अथवा ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है तो वह बोलीप्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
47. बाल श्रमिकों को संविदा कार्य में लहीं लगाया जावेगा।
48. अनुबंधित संवेदक द्वारा संविदा चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक/श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोट करता है तो संविदा के अधीन कीमत कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जावेगी और संविदा तदनुसार संशोधित की जावेगी।
49. मूल्यांकन की कसोटी :— क्वालीफाईंग बिड में सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा वित्तीय बिड में प्रस्तुत मजदूरी दर एवं सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि के योग की न्यूनतम कीमत पर वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
50. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर लागू नियमों की पालना करनी होगी।

विडदाता के हस्ताक्षर  
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

लेखाधिकारी  


कन्द्रोलर  


  
सहायक सचिव

राज्यपाल सचिवालय,  
राजभवन, जयपुर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य के लिए रजिस्टर्ड हैं, वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध हैं। मेरे द्वारा विभागीय बोली की शर्त परिशिष्ट 'अ, ब, स, द, अनुलग्नक 'अ, ब, स, द, एवं नमूना करार पत्र तथा बोली आमंत्रण को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करुंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते हैं। तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एवं नियम-39 के अनुसार राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा पात्रता से विवर्जित (Debarred) नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली/प्रतिभूति राशि का सम्पहरण कर लिया जावे तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर

लेखाधिकारी

(११)  
कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

**Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest :-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
  - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
  - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

लेखाधिकारी  


कन्द्रोलर  


सहायक सचिव  


**Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated ..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

  
लेखाधिकारी

  
कन्द्रोलर

  
सहायक सचिव

### **Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is Secretary to Governor of Rajasthan  
 The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary Cabinet Sectt. Govt.of Rajasthan,Jaipur

- (1) **Filing an appeal**  
 If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :  
 Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.  
 Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) **Appeal not to lie in certain cases**  
 No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-  
  - (a) Determination of need of procurement.
  - (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
  - (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
  - (d) Cancellation of a procurement process.
  - (e) Applicability of the provisions of confidentiality.
- (5) **Form of Appeal**  
  - (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
  - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
  - (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (6) **Fee for filing appeal**  
  - (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
  - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) **Procedure for disposal of appeal**
  - (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
  - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –  
    - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
    - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
  - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
  - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

लेखाधिकारी

कानूनी लेखा  
कानूनी लेखा

सहायक सचिव

## Annexure D: Additional Conditions of Contract

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in

Which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### **2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally Specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twin's present, of the quality specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value go Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier Fails to do so, Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### **3. Dividing quantities among more than one Bidder at5 the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates or the Bidder, whose Bid is accepted.



लेखाधिकारी



कन्द्रोलर



सहायक सचिव

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement  
Act, 2012**

Appeal No.....of.....

Before the .....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :  
(i) Name of the appellant :  
(ii) Official address, if any :  
(iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):  
(i)  
(ii)  
(iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal :.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :.....

Place .....

Date .....

**Appellant's Signature**

लेखाधिकारी

कन्दोलर

सहायक सचिव

## नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक ..... माह ..... सन् 2020 को एक पत्ता के ..... (जिसे इसमें आगे "अनुमोदित प्रदायकर्ता" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) हितीय पत्ता के बीच सम्पन्न किया गया ।
2. अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के ..... को उसके मुख्यालय पर तथा समूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम संलग्न में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है ।
3. अनुमोदित प्रदायकर्ता ने राशि रूपये ..... की राशि .....

- 1."ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा";
- 2.किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
- 3.राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अन्य बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत त्वकीयों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो । बोली के समय ये उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी ।
- 4.किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियाँ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी । बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिशृद्धि के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी ।
- 5.किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोक्षित की जायेगी । उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व वह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है । कार्य सम्पादन प्रतिशृद्धि के सम्पर्क की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अंजित व्याज के साथ समझौत कर ली जायेगी ।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:

- (1.) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर ..... के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता ..... और उसके आदेश में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा ।
- (2.) निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पत्रकारों के लिए मान्य होगी ।

- (3.) निविदादाता से प्राप्त पत्र संख्या दिनांक ..... तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या ..... इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे ।
- (4.) (क) सरकार एवं द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्तुओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार ..... के माध्यम से अनुमोदित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देव राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी ।
5. (ख) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से ..... की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण हैं—

i. बैंक का नाम एवं पता :— .....

ii. बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो) :— .....

iii. बैंक खाता संख्या :— .....

iv. बैंक IFSC कोड नं :— .....

5. माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी—

कम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
-----------	----------------	----------------

6. (1) (i) यदि शास्ति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी—
- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी: (i) प्रदाय ने विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा ।  
(ii) स्वीकार की गयी परिसमाप्ति नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी ।  
(iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा ।

- (2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाप्ति नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी ।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वाचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा सरकार का निर्णय अनिम्म होगा ।

8. अनुबन्ध की अवधि आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी तथा परस्पर सहमति अनुसार से उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है ।

इसके साहय में इससे प्रकारों ने आज दिनांक ..... सन् 2020को अपने हस्ताक्षर किए ।

राज्यवाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर / पदनाम	अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर
--	-----------------------------------